125
Jyautisa

2629 | I

ASHA ARCHIVES

ॐ नमः सर्व्वज्ञाय॥ नानादेविडकाव॥ नानादेवनलोकं
ख्वनमकः डदरवं॥ मनु क्रुय नाह्नि नयायनः नानाउँयान
ञ्रासदाउः हिदमहिदः साह्नियाय निमिह्निनः ब्रुलपालस
केडदाः कदाउविज्ञायमाल त्रुगनर्थ्ययमालधकंड्डा॥
लोकख्वनउवाख्व॥ हूनहनाना॥ ह्नि नानादेविडडा, ख्रियिह्नी
सनानाउत्यानह्रयिउाः ख्वंवलमथप्रमाह्नि॥ ब्रुवलुर्सर्गमहग
लनहस, पनालिम, कानम, यार्मयद्धलेः हादवाकदयुउा॥

घ॥ ब्रु हदहाउउयाः ब्रुयानायकर्द्धयाकदियीउाः स्वना
मानिड॥ श्रयामाँ॥ ह्नि॥ दानविया ब्रुमकनिविय॥ ॥उनकव
उया, का पयाख्वासंबुकलहनवानिरः ब्रुहमनाहृयिर॥ श्रुय
माह्नि॥ हामयाय, दरदजायाय॥ पापयायके॥ रवनहनयाउ
कनिविय॥ वनिः व्रदानविय॥ भाजन, यिकुनावार्यः हउन
यावका॥ लस्वसकिलदायुहा, नाधायिउा, गनांयद्दलेः कालि
हाउया: नायकर्द्धयाकदियिउाः धननामहृयिउा॥ श्रयामाह्नि

× × ×

गलउक्रूयाय,मिउलवानाम्ह तिर्थयात्रवम्याउः उलपुजाःपु
लाकिजाकि,इइ,मिमितिडानाग द्वयक्रुग,इइ,राङ्गतिवियःति
लपात्रःघृतपात्रःरथ्छउः दानवियःकिलदाउथाम्ह,क्रतिक्रि
ताउथाम्ह,पंचगव्यनहाय,बलिविय,क्रतिताउथाम्ह,वाम्ह्याउ
उ,वयिम्हनयःब्राह्मनतेगनयावक॥ धुननसानि॥ ध्रु म्हमि
ध्रुसंकुउयिउक्रमिदायिरु,नानाप्रकृतम्हउाय्ःउान्ना ने
मेतिद्वःम्हमिम्हद्धे,नामद्राय्,मिनप्यउ॥ धुयासानि॥
मिक्वनहायायमाल,नरगृह दानविय,तोमयायःकृत्रपा
लबलिवियःकुमिदाउथाम्ह,वाम्ह्याउाउ,वयिम्हनयःबलि
१·उाम्हामनुष्यथडाउ,दानविय,ब्राह्मनतेगनयावक
॥ धुननसानि॥ ध्रु म्हतिन्ताय्ःमख्वाम्हन,रवाहिउाय्
॥ धुयासानि॥ कलम्हपुजायाय,नउागृह दानविय॥ ब्राह्म
नतेगनयावक॥ धुननसानि॥ ध्रु म्हविद्दाररयात,म्हमि
म्हचे ज्ञसाधनहानि,ल्हिउन्वायमातिउःक्रम्हक्रुक्रुयाय॥

धुयाम्हासि॥ हिवियाडाउ, होमयाय, पं ह्न ल ह्मा पाथयाय:त्रि
लोह, मलव, पियी लःहर्थ, कोह्नि, वाकु, ह्मरवल, होमहिति
कहि, सासि, विद्दि, फयययथ ह्नु नव ॐ यका, प्रनका, म्हस्पि
दृय॥ ॥ वनिम्हवय, कताहाँ ह्नाय, जिग्वपि, व्वनारुवाय, प
नुपि, लसिक, दह्नन, थ्वन ह्न नवनिम्हनय: पिद्द होउडायी
वाडायम्ह, सह्माडाउ, दक्षिनाव्र विय: ब्राह्मन नोह्नन याव
का॥ थ्वनन म्हासि॥ विह्नु मालरवडायाः ज्मनद्व वाकु म्हरय

डाउदानविय॥ थ्वनन म्हासि॥ रिव वानयनह्न याडा वाडरवा
डायाः वानह्न कयाह्ल, महापागिह्नयु, धनहानिह्नयुउ॥
धुयाम्हासि॥ ह्नन ह्मर जाकि जायुयाउ, वनाहाउनम: ॐ रिव
वाह्मा रुययाउ, निवनयहुर नाय॥ सानि वलि विय, ज्मलद्ध
दोवाद्वरयुडाउदानविय॥ थ्वनन म्हासि॥ जाति, थल पाकोवे
मा, लाहोवाह्माद्वल, हृइयल ह्नाकया॥ ह्नसह्न ह्नयायमान॥
धुयाम्हासि॥ ह्न म्हय ह्न: धनहानि, सादानविय मालः ब्राह्मनता

उनयावकं॥ध्वननमालि॥ञनक, पर्वत, जीवन, दुरुपद्यउ, कन
म, गङ्गन, दुरु, ग्रनीकदुइद्वया, रनद्वलया, क्षितिडउजया॥नागा:
याकदिव्यिरा॥ग्रजासियीउ, डादानीमहिङ॥ध्वयामालि॥
हामयाय, माहायथयायवकः दानस्थि १००० ग्रीकृनिबिय॥ल
मिदानविय; २दानविय, धर्मादिपन, दव पूजायाय, कलवि
य॥ध्वननमालि॥ ध्रुसंथम्ललउयाक्रखावास्थ यचेल, ह्लक्षसंथ
हालः नानाअनन्दुमिडाउ तानिउ: ध्रुयाहल, सामिम मुद्राय

उः पिदान हाइरायु उ॥ध्वयामालि॥ तिनयाग्रहरुयुद्धाउ स्त्राव
नावाम, पिलानयाउः दानविया॥ब्राह्मनतोउनयावक॥ध्वन
मालि॥ स्वकाहगस्थानहायिर॥ध्वयामालि॥ नरग्रहदानविय
वीनिबिय॥ध्वननमालि॥ उलगामिवउाम्याहल: नायकस्तं दास्थी
नकामल्प॥ध्वयामालि॥ २दानविय, ब्राह्मनतोउनयावक॥
ध्वननमालि॥ ग्रसिद्धिनं नानात्लहा, २, उसीस्रादिनं तानिउ
ध्रुयाहल, सामिमद्रायुउः क्षिमद्रायुउ, डादानन हाइयका

ध्ययाम्हनि॥ कलस पूजायाय, गणेश पूजायाय: ङ, दानविय
ब्राह्मनभोजनयावक॥ धुननम्हनि॥ गनाङ नमन, तसिन धन्न
धन्नन श्राद्धदेउयाय् उ: व नवाहानम: भिवद मेनस, पर्वनम
गनानंद्व उउयां कूलः म्हद्व नाउ ङ्कम ङुस्यउ॥ भिनानः
ङ्॥ ध्ययाम्हनि॥ वस्तिविय, होमयाय: म्हादानविय, तमिदान
विय: ङ दानविय, पाययाय: ब्राह्मनभोजनयावक॥ धुनन
म्हनि॥ स्वस्नान, यउगमिलया, कंपाम स्वनिउ: ङ्कयानिम्ह

नोम्हं, कयाय मस्वानिउ: ध्ययाकूल, वियहद मयमपिउ, ङ
ङुस्यउ, ध्रुन न्ह॥ ध्ययाम्हनि॥ वनविय, सिजलकनाउ।
म्हनक, नाकून यबाउ, ङयउाउ, दानविय, ब्राह्मनभोजनया
वक॥ धुननम्हनि॥ मनकूयाङ्गनु मावाद्यूउ, भनाएव
नाएं, ननाङवङयउ, ननानमहिड॥ ध्ययाम्हनि॥ होमयाय
ङ, दानविय, कुलमपूजायायः ब्राह्मनभोजनयावक॥ धुननम्ह
नि॥ मनकूयाँ भिनम, ङ मायानदाङ उ, ङयूउ, ङ्कयाथयम

सं थव्हल, गनि नस्ह थव्हल ॥ थ्व या माहात्म्य ॥ न्हला ॥ गोनि न्हु यूथ
नसा निह्न यू, वनि विय, यं ... गथ नद्दा यस्त्राकुन, स्वान नय, युजा
याय, घलयाँ म ... दान बिय, यमू दान याय, ब्राह्मन
लोजन याव क ॥ थ्व मनमाहात्म्य ॥ चंद्र माहाँ थव्हल : सूर्य्य
जथव्हल : घाल ... ओ, वोइ स्वान क्वा, थ्व या न्हल, मर्हे उाय
ओ, ङ्गि ... यूओ, ... माय ... ओ, दाख्नि नद्दा ... यूओ
न व स्यन न्हु यू ओ : ॥ थ्व या माहात्म्य ॥ दान ब्राह्म याओ, जिम ... य

ल्यन कं ह्मसतन थडाओ, घ्य ल नया ओ, न्हु, गुरु याकूओ, दा
न बिय, वाथ याय, सहा वनि विय ब्राह्मन लोजन याव क
॥ थ्व न नमाहात्म्य ॥ ... विहि वाडा वानि ओ, थ्व या न्हल, थमना
गि न्हु यू ओ, दाखि ... ॥ थ्व या माहात्म्य ॥ विद्दहा ओ ओ थास याय
हो मेहे ... याडा ओ, होम याय, सिन ... ओ, थ्व या न्हल, ज
ओ मान ... होम याय वनि विय, दान याय, का
... कन्हि, ... चंद्र विंम्ब दान कि

x x x

नेनेत्तदाशिरोः पश्चिमेनमनेत्रेस्याद् बोदीच्यां स्तु
त्रेव पश्चां गतंवस्तु मंदनत्रे तदाशिरोः पश्चिमेनमनेत्रेस्याद बोदीच्यां सुतो
चनेः अंधके लभते नष्टं मंदकेचदिनत्रयं मध्यकेचवर्तः अक्षा
न धामो तिरु लोचने अंधे चौरहतंद्रव्यं लभेद्यानात्मंदकेः मु
ध्यके सुलभ्यांद्रेवनकिंचनस्तु लोचने अंधाः अकारागमेपोदिव
लोचने गताद्रव्यं हीनी पुर्वस पुवां मन क्षत मान ५ वाहेवीत

अ । मं मध्य

ASHA ARCHIVES
2.629 I

ब्राह्मन भोजन याव वकं ॥ धुन न्हानि ॥ ॥ दत्त पूजा याना
ह्न, मस ह्लाय, ह्रं, रक्ष, नेदिनं, हि मठाम ... ध्व कयाव
ल, गजमान मस्तु क्रिय: दानान ह्ना याय माल: ... नि
॥ हिनं दत्त पूजा याय, मोदान विय, तमि दान विय, २, दान
विय, गान वज्र पूजा याय ॥ धुन न्हानि ॥ ॥ विमि डाठ
नाश याना ठाकुर वाड या हूल, मस्तु क्रिय ठा, दान ह्नाथु याम
नि ॥ ॥ नियन्दा पल २ गमन वं मि जलवा नादयका ठहा

मल यन्दा ठ क्वाथल नय याउ, दान विय माल: याथ्य याव वकं
ब्राह्मन भोजन याकं ॥ धुन न्हानि ॥ ॥ कोरव नक पान सक्कं
कयाव ब्राकया हूल, नेकाल मस्तु: ॥ धुया न्हानि ॥ हिम याय
नियन्ता नयाव, निर्थ याल रव नयान, कलश पूजा याय, स्नान
वनि विय, नागपूजा, ठर्द्र वनि विया न २, नेह वलि, पान २ ह
ठ वलि पान २, कं स याव सम्ह घेल पह्र नयाज, २, थुडा जाठ
ङ्गसिं छ नयाउ, दान विय माल ब्राह्मन भोजन याव वकं ॥ धुन

न सानिं॥ पलेबासं, पलेयाकवारवनिउ, पत्तमुनमदुरवनि
उ, थयाद्दूल, खड्ग स्मं म त्युद्गापुउ, न्ह्य ध्या सवकर्हन्नायदय
उ, ख नालमतिर॥ धुयासानिं॥ होमयाय, दोलछि स्वाहूति:
विया ब्राह्मन काउनयावक॥ धुनन सानिं॥ ॥ मसावन
थलः खङ्ग क्षय नायाका नया, दे नवन काउ, थयाद्दूलना
यकद्धंम त्युद्गायुउ, विनानामतिङः हनं खङ्ग सानि डाह्नि
म त्युद्गायुउ, ॥ धुयासानिं॥ पायधयावक, दुर्स्मपूजायाय, दव

दानविय, नाम, दु, गहनयाउ, दानविय॥ धुनन
सानिं॥ ॥ दन्मलहं पद्मले, कोरवनह्न नाउया, द्दूल, पुलव
कुयाह यः छुयापूर्व गा ध्वनाउमा, विग्रह म्पपु उ, ग्राग्रः
कोनाम, सनावमा, मिनपु यठ, दक्षिन, नाव मा, छु पुनम्पु
दयुउ, नैरुक्षको न सनावमा, हिरण्याद्क्षो वदायुउ, वायु
म, ह्मास, ध्व नाउमा, धननास द्यूउ: वायिव्य कोनस, ना
वमा, युत्रम त्युद्गायुउ, उत्तम, नावमा, नाजल्य, धननाश

ह्रस्यूडाः॥ सानसतातस्याः॥ थोगनकयूडाः॥ हु यादयूस्त
स्याः॥ नकाल मत्यूद्वायूडाः॥ धूयामाल्हि॥ माहाविविय
कलसयूजायाय॥ नि जनख्वानास धलथ्यू डाडा॥ ओहानद्
थंपडाडा॥ कायानन्यूयाडा॥ दानविय॥ पं ह्रु गववनह्यायाद्
नकाथ्यययायाथूवविस खर्जनताकधन॥ ताओयाडाडाड्
ख्वयालद्भूयाडा॥ मिह्लायकं॥ सोवाड थ्यास पं ह्रु गथवनह्रा
य॥ कलसयानख्वनह्रायः॥ नडानवाय्हुजको ख्वख्वसद्धाय

दक्षिना॥ क्षिरख्वोनासधडाडा॥ धलदानविय॥ ब्राह्मनह्नावार्थ्यवी
ह्रु॥ लोजनयावकः॥ वस्त्रदानविय॥ धनननमाल्हि॥ व्रसपू
मादाहया॥ ठुनायिदान॥ मवनाव्यूडाः॥ धूयाह्लः॥ कायद्भ
वया॥ अदिसकदियूडा॥ मत्यूद्वायूडाः॥ सोनाह्रा॥ धनसदियिडा
धूयामाल्हि॥ पं ह्रु न ह्रापापयाय॥ कासयाजस॥ गनधू॥ वंडवी
ह्रुनयाडाः दानविय॥ ब्राह्मनलोजनयावकं॥ धननमाल्हि॥
हर्यल ख्याविवाद्भूसडायूडा॥ धूयाह्लः॥ ख्वायी॥ ख्वावसह्नः

लछिनका ॥ धुयामालि ॥ लामयाय, वंकु पिंम्ह दानविय:रुद
छिनाविय:माला वनिविय, पंखु उयवलपुजा: व्राम्हन लाज
नयावक ॥ धुन नमालि ॥ ॥ नगलसं थङालं, गामसं थङालो
लाम वनं नमडउं वु उयपुउ, दसयानायकम्हम्ह लुकुयपुउ, लवानकाद
पुउ ॥ धुयामालि ॥ लामयाय कलसपुजायाय: ऋमपापुस, धुन लयाउ
कम्याउ कायाकनपुयाउ, दानविय: व्राम्हन लाकनयावकं ॥ धुन नमा
लि ॥ ॥ छुमपथङाल, यम कासं थङाल, हि ङाम गायिज, दछिकाम लुकुय

उ, ॥ धुयामालि ॥ दि ङाम मक याम, वपिथियं, कम्हालाउ डाकवि मसलय:या
न कुउलान ख्युंउनकाउ याय: दानविय, लामिदानविय, मकर्न्ह दानविय:
वयिक नारवम वय व्राम्हन लाकनयावक ॥ धुन नमालि ॥ ॥ थउाकया
नया, गाछिम स्वानमाउ, क्रमसम र्णकाम लुकुयपुउ, ॥ धुयामालि ॥ लामयाय
छुलयपुजायाय: कुमकनदानविय ॥ धुन नमालि ॥ ॥ छुमाकि सियाम,
नया, मसया, लालानं, कुनिं थङाले, छिपनथङाल: छुमि मं: नस्वसं थङालछं
लितुसं वानिउ, रख नाममनिउ स्वामिम्ह लुकुयपुउ, ॥ धुयामालि ॥ लामयाय कु

तमयुजायाय:युनइरमाज्ञा[illegible]वा.इइ.धपि.नाडा.हि.थ.लिमा.क्रु.ज.वसिह
ह्नाय:सर्वक्रुदयकाञ.दानविय.त्रा.क्लन.ताऊ.नयावक ॥ पुन नमालिनी ॥
मन्त्रुयाः:हृयइले.कवात.यवाल.आप्ती.क्षा.यन्ना.कयय्.मा.न.मा
त:यु.ता.दानि.डा.धुयाद्न.ल:स्वामिन्द.सु.राय.अ: ॥ धुयामालिनी ॥ युमद
इ.कास.मालिनी: ववि.विय.निर्थवविविय:कर्ण.यात्रम.घरनयाजार.पु
अ.संत्रुविन्ध.दानविय:यंक्ष.विद्विमास:श्रुनवक्तुतानतकसन्कृवि
य ॥ पुन नमालिनी ॥ ॥ श्रुइताअय:श्रुयामिमडयाः:धुयाद्नल:स्वामि

स
म.ल्कुराय.लदानक्ला.राय: ॥ धुयामालिनी ॥ वलमयुजायाय.मालिनी.ववि
य:विक्नुदानविय:मंविपनासार्थयमा:मुवर्न्नुदक्षिनविय:गुपुर
ताकम.कन.मकरवनहाय:ताऊ.नयावक ॥ पुन नमालिनी ॥ ॥ इ कर्म
देजावायनस:थमानियावत्र:मिन्नद्यु:डादानक्लामदलुराययुज ॥ धुया
मालिनी ॥ तारयाय.माध्यायायायावक:मुवर्न्नुदानविय.द.डायुजाया
य:महावविविय:क्षत.वमात.क्षुन.दमालक्ष्माय:यक्षु.गवनलमयुत
क्रम.क्रमामियजायायय.श्रुववि.विय:आक्लनताऊ.नयावक ॥ पुन

नहालिका ॥ ब्रह्मस्थलले, लक्ष्म कुन्तलं नहाउ, धनयात्रकहाय्कं नद
नक्षत्रमलक्ष्य ज्ञायउ ॥ शुभयामालिका ॥ साद्धानविय, नचथन दानविय: उल
उक्षयाय, उविविय, कामविलाउनयावक ॥ शुभ न नहालिका ॥ लक्ष
सकयान, नयाहं यज्ञलं, धनयाम यज्ञल, सुपोललनखड्ग जनयाम सुकया
हल, लामियत्त्वु, धनहानि, दोषि नहानसल्युक्ताय ॥ शुभयालालिका ॥ हलक्ष
कयाय, विकु, कुम्बन, न वियथालं सुकर्त्तु दानविय लाउनयावक
शुभ न नहालिका ॥ कुरवहन नज्ञाय, कारवमनमहल नमा: मनमज्ञायउ

सिरवामहलनमाजाजरय: जनथोनमहजवमाधनहानिज्ञय, उालमह
नमाप्रलयालय, सुनमहज्ञनमा: समिमयकय, श्वकाबानहिङ: नाहानम
नमलागनकय: कुनिम ज्ञनमा: श्वाक, सवानामल्युज्ञय ॥ शुभयामालिका ॥
वाड्करवनियसुयामहउानकारवयनाक्षियक्रुयायाय ॥ शुभ न नहालिका
मद्धकया, नाहान, कुनि, ढ्यकाडयाहल ड्ढयानायकर्द, मलय्ज्ञाय, पिनालाम
लि: ॥ शुभयामालिका ॥ लानयाय, कामयाकुम, कुकयाउ, वंकु सिम्ह, सुन थुताउ
नय वतु, नयथाउ, दानविय: अवर्हुदङ्कनाविय उाम्बन लाङनयावका

x x x

ले ले

शु[illegible] [illegible] नकेकोनक्ष[illegible]तौ अजाया[illegible] [illegible] गन्धयामालिका ॥
[illegible] घनपात्र [illegible] यात्र [illegible] ॥ यमनमालिका ॥ ॥ [illegible]
[illegible] ननमया । [illegible] [illegible] काउ [illegible] नलमा [illegible] ॥ ॥ [illegible]
नलमा [illegible] दक्षि नमन्नलमा: धननाम: [illegible] नमा [illegible] [illegible]
[illegible] नलमा धननाम: [illegible] ननमा [illegible] नमा [illegible] प्रानि: [illegible] नल
मा [illegible] [illegible] ॥ [illegible] ॥ ननमा [illegible] ननमा २ ननमा: [illegible]
[illegible] ननमा [illegible] [illegible] ननमा [illegible] प्रानि: [illegible] नन [illegible]

मा [illegible] [illegible] ननमा [illegible] प्रानि: [illegible] १ ननमा [illegible] ८ नल
मा [illegible] ८ ननमा धननाम: [illegible] १० ननमा धनप्रानि: [illegible]
[illegible] ननमा धन [illegible] [illegible] १२ ननमा धनप्रानि: [illegible] १२ नल
मा [illेgible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] ८० [illegible] २ माघवदि ४ [illegible] ॥ [illegible] प्रथमिया
[illegible] ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
[illegible] धवा [illegible] नदा
[illegible]